#### **HPL Electric & Power Limited**



CIN: L74899DL1992PLC048945

Corporate Office: Windsor Business Park, B-1D, Sector-10, Noida - 201301 (U.P.) | Tel.: +91-120-4656300 | Fax. +91-120-4656333

E-mail: hpl@hplindia.com | website: www.hplindia.com

15th February, 2023

The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza", C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051

Symbol: HPL

**BSE Limited** 

25th Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 540136** 

#### **Subject: Publication of Newspaper Advertisement**

Dear Sir

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the Newspaper Advertisement (Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022) published today in Business Standard (English and Hindi Edition).

This is for your kind information and record please.

Thanking You,

For HPL Electric & Power Limited

Vivek Kumar Company Secretary

Encl: As Above



#### HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC048945 **Regd. Office:** 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 **Ph.:** +91-11-23234411, **Fax:** +91-11-23232639 E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com

ΕX	EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. in Lakhs									
Sr.			uarter ende			ths Ended	Year ended			
No.	Particulars		30.09.2022				31.03.2022			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations	30,158.51	30,227.73	28,004.34	89,945.57	68,881.89	1,01,395.47			
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	980.72	970.22	925.12	2,920.27	(332.13)	1,393.48			
3	Net Profit/ (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	980.72	970.22	925.12	2,920.27	(332.13)	1,393.48			
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	638.37	627.79	930.39	1,898.13	(571.86)	780.46			
5	Total Comprehensive Income for the period {comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)}	620.31	612.83	943.67	1,848.73	(533.94)	720.14			
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	70,018.83			
8	Earnings Per Share (face value of Rs.10 each)									
	1. Basic (Rs.)	0.99	0.97	1.44	2.94	(0.89)	1.21			
	2. Diluted (Rs.)	0.99	0.97	1.44	2.94	(0.89)	1.21			
KEY	STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR T	HE QUARTE	R AND NINE	MONTHS EN	DED DECEM	IBER 31, 202	2 (Rs. in Lakhs			
Sr.		C	uarter ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Year ended			
No.	Particulars					31.12.2021	31.03.2022			
140.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			

1 Total Income from Operations

2 Profit before tax

3 Profit after tax

 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's at their respective
meetings held on February 14, 2023. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

901.47

585.90

861.56

560.02

28,684.40 | 29,128.22 | 27,325.57 | 86,267.10 | 68,035.40 | 1,00,427.98 |

715.02 2.622.21

1,706.03

727.21

- 2) The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website www.hplindia.com
- 3) Management has changed its segmental reporting by aggregating/restructuring on the basis of similar economic, market and business characteristics. Thereby the two new reportable segments identified are Consumer & industrial by aggregating wire & cables, lighting, luminaries and switchgear business in to one segment and aggregating of Metering, systems and projects business in to another segment as Metering & Systems. Changes in reportable segment are in ccordance with Ind AS 108, hence previous year figures are re-instated to make it comparable
- 4) Previous quarter/year ended figures have been regrouped/ restated wherever necessary.

For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited Rishi Seth Managing Director DIN:00203469

(337.15)

(552.53)

1.086.62

711.95

Place: Noida Date: 14.02.2023 Vipul

VIPUL LIMITED

Regd. Office: Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Delhi-110017 Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.ir Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the 3rd quarter & Nine Months ended December 31, 2022 (₹ In Lakhs except per share Earnings per share)

ᆫ	(/ iii Lakiis except per share Larning							
s.		FOR T	HE QUARTER I	ENDED	FOR THE NINE I	MONTHS ENDED	FOR THE	
No	Particulars	31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	YEAR ENDED 31.03.2022 Audited	
1	Total Income from operations	759.20	1,444.65	7,606.46	3,635.42	10,818.34	13,158.05	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,					·		
l	Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(3,453.65)	(2,837.48)	(3,491.51)	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after							
l	Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,837.48)	(3,491.51)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after							
l	Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,131.94)	(2,785.97)	
5	Equity Share Capital	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	
6	Total Comprehensive Income for the period							
l	(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)	(4.004.40)	(007.07)	(40.74)	/40 000 00)	(0.404.04)	(0.700.00)	
١,	and other Comprehensive Income (after tax)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,131.94)	(2,736.86)	
7	Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing							
l	and discounted operations)	(4.00)	(0.70)	(0.04)	(40.74)	(4.70)	(0.00)	
l	- Basic - Diluted	(1.02)	(0.76)	(0.04)	(10.74)	(1.78)	(2.32)	
L		(1.02)	(0.76)	(0.04)	(10.74)	(1.78)	(2.32)	
=	tract of Consolidated Unaudited Fin							
1	Total Income from operations	860.89	4,865.36	7,828.23	7,304.72	11,611.39	14,776.19	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,			4= 4 4 4 4 4 4				
١.	Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,393.35)	2,750.64	(244.25)	(712.81)	(3,484.64)	(4,883.47)	
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after	(4.000.05)		(044.05)	(40.445.00)	(0.404.04)	(4.000.00)	
L	Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,393.35)	2,750.64	(244.25)	(10,145.96)	(3,484.64)	(4,888.38)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after	(4.004.07)	4 007 40	(400.44)	(44.044.04)	(0.770.45)	(4.400.05)	
5	Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,391.97)	1,867.42	(190.11)	(11,041.34)	(2,779.15)	(4,182.65)	
6	Equity Share Capital Total Comprehensive Income for the period	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	
ľ	(Comprising Profit / (Loss) for the period (after							
l	tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(1,391.97)	1,867.42	(190.11)	(11,041.34)	(2,779.15)	(4,133.54)	
7	Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing	(1,391.91)	1,007.42	(190.11)	(11,041.34)	(2,779.13)	(4,133.34)	
ľ	and discounted operations)							
l	- Basic	(1.16)	1.56	(0.16)	(9.20)	(2.32)	(3.49)	
ı	- Diluted	(1.16)	1.56	(0.16)	(9.20)	(2.32)	(3.49)	
ı	Dilutou	(1.10)	1.00	(0.10)	(3.20)	(2.52)	(0.70)	

NOTE: The above are extracts of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-Audited for the 3rd quarter and nine months ended December 3 2022, filed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd., under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosun Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the standalone and consolidated un-audited for the 3RD quarter an nine months ended December 31, 2022 is available on the websites of the stock exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** an on the Company's website i.e. www.vipulgroup.in.

he above standalone and consolidated un-audited for the 3rd quarter and nine months ended December 31, 2022 is reviewed by the Au Committee and on the recommendations have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14, 2023 further in accordance with the requirements of Regulation 33 of the Listing Regulations with the stock exchanges, the statutory auditor have carrie out limited review for standalone and consolidated un-audited for the 3rd quarter and nine months ended December 31, 2022 and the limited revie eport has been approved by the Board.

The above results have been prepared in accordance with recognitions and measurements principles laid down in Ind AS prescribed under Sectic 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. hese results will be made available on the Company's website viz **www.vipulgroup.in** and websites of BSE Limited and National Stock Exchar of India Limited viz, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of the Boar **Vipul Limite** 

Particulars

Punit Beriwal Managing Director

#### FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR **RICHA INDUSTRIES LIMITED**

extile Unit at Plot No. 29, DLF Industrial Area, Phase-I Faridabad 121003 Haryana PEB manufacturing unit at Kashipur, Uttrakhand Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

	RELEVANT PAR	RTICULARS
1.	Name of the corporate debtor along with CIN/ PAN	Richa Industries Limited CIN-L17115HR1993PLC032108 PAN-AAACR7943J
2.	Address of the registered office	Plot No 29, DLF Industrial Area, Phase-II, Faridabad 121003 Haryana
3.	URL of website	Nil
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Faridabad Haryana Kashipur, Uttrakhand
5.	Installed capacity of main products/ Services	Can be sought by sending a request to Resolution Professional at irpricha@gmail.com
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Can be sought by sending a request to Resolution Professional at irpricha@gmail.com
7.	Number of employees/ workmen	350
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Can be sought by sending a request to Resolution Professional at irpricha@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Can be sought by sending a request to Resolution Professional at irpricha@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	02.03.2023
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	12.03.2023
12.	Last date for submission of objections to provisional list	17.03.2023
13.	Process email id to submit EOI	irpricha@gmail.com

Arvind Kumar

Resolution Professional Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-P00178/2017-2018/10357 Date: 15.02.2023 Email: irpricha@gmail.com Address: D-190, 3rd Floor, Sector-74, Phase-8B, Mohali-16007

# KRYPTON INDUSTRIES LTD.

CIN: L25199WB1990PLC048791

Redg. Office: Plot No.31 & 32, Falta Special Economic Zone, Sector - 1, 24 Parganas (S) Pin - 743-504 Head Office: 410, Vardaan Building, 25A, Camac Street, Kolkata - 700 016, Email id: krypton@kryptongroup.com

Г	EXTRACTS OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2022 ₹ in Lakhs									
			STANDA	ALONE		CONSOLIDATED				
	PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2022	Quarter Ended 31.12.2021	Year Ended 31.03.2022	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2022	Quarter Ended 31.12.2021	Year Ended 31.03.2022	
l		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	727.86	2,252.95	1,109.52	4,058.25	768.50	2,319.28	1,175.16	4,360.44	
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and									
1	Extraordinary items #)	37.83	85.32	50.40	503.46	33.84	71.11	46.73	482.11	
3	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and									
ı	Extraordinary items #)	37.83	85.32	50.34	140.82	33.84	71.11	46.73	119.47	
4	Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and									
ı	Extraordinary items #)	33.83	89.32	46.34	89.86	29.84	75.11	38.93	68.51	
5	Total Comphrensive Income for the period [Comprising Profit/									
ı	(Loss) for the period (after tax) and other Comphrensive Income									
ı	(after Tax)]	33.83	89.32	46.34	89.74	30.02	75.20	41.43	72.20	
	Equity Share Capital	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance									
ı	Sheet on previous accounting year	-	-	-	1,410.22	-	-	-	1,518.88	
8	Earnings per Share (for continuing and discontinued operations)									
1	(Face Value of ₹10/- each)									
1	Basic & Diluted (*Not Annualised)	0.23*	0.61*	0.32*	0.61	0.20*	0.51*	0.27*	0.48*	

# The Company doesn't have any Exceptional & Extraordinary Items

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015. The full format of the quarterly/ Annual Financial Results are available on Stock Exchange Websites (www.bseindia.com) and on the Company's Website (www.kryptongroup.com).

(JAY SINGH BARDIA) Managing Director DIN: 00467932

### NATIONAL PEROXIDE LIMITED

Place: Mohali

Registered office: Neville House, J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001 CIN: L24299MH1954PLC009254 Tel No: (022) 66620000 ● Website: www.naperol.com ● Email: secretarial@naperol.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Standalone

(₹ in Lakhs)

Consolidated

No.		Quarter	Nine Months	Quarter	Quarter	Nine Months	Quarter
		Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Revenue from Operations	11,511.50	28,757.10	7,973.67	11,515.12	28,814.65	7,974.24
2	Net Profit for the period (before Tax,	2,334.60	2,616.12	1,214.94	2,334.17	2,662.66	1,215.30
	Exceptional and Extraordinary Items)						
3	Net Profit for the period before Tax	2,334.60	4,206.91	1,214.94	2,334.17	4,253.45	1,215.30
	(after Exceptional and Extraordinary Items)						
4	Net Profit for the period after Tax	1,739.57	3,155.35	883.34	1,739.52	3,190.23	883.61
	(after Exceptional and Extraordinary Items)						
5	Total Comprehensive Income for the period	1,315.15	4,012.92	333.48	857.38	5,949.64	(1,235.56)
	[Comprising Profit for the period (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]						
6	Paid Up Equity Share Capital	574.70	574.70	574.70	574.70	574.70	574.70
	(face value of ₹10/- each)						
7	Earnings per share						
	(before and after extraordinary items)						
	(face value of ₹ 10/- each) (Not annualised)						
	(a) Basic	30.27	54.90	15.37	30.27	55.51	15.38
	(b) Diluted	30.27	54.90	15.37	30.27	55.51	15.38

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these results are available on the Stoci Exchange's website (www.bseindia.com) and the Company's website (www.naperol.com)

in their meetings held on February 13, 2023 and February 14, 2023 respectively.

For National Peroxide Limited

(Rajiv Arora) **Chief Executive Officer and Directo** DIN: 08730235



Place: Kolkata

Date: 13.02.2023

# **A2Z INFRA ENGINEERING LTD.**

Registered Office: O-116, 1st Floor, DLF Shopping Mall, Arjun Marq, DLF Phase 1, Gurugram-122002, (Haryana) Corporate Office: Plot No. B-38, Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001 (Haryana) E-mail: investor.relations@a2zemail.com, Website: www.a2zgroup.co.in, Tel.: 0124-4517600,



Place: Mumbai

Date : February 14, 2023

												(Amount i	in Rs Lakhs)
				Stand	dalone					Consc	lidated		
S.		Quarter Ended			Nine months period ended Year ended		Quarter Ended			Nine months period ended		Year Ended	
No	Particulars	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1,489.17	2,066.01	2,983.21	5,478.53	9,558.37	13,601.00	8,354.82	9,653.58	8,068.67	25,873.19	25,448.80	35,332.50
2	(Loss)/Profit before exceptional items and tax	(373.94)	(479.62)	(449.24)	(1,034.52)	(1,410.76)	(17,289.08)	(453.94)	(421.64)	(441.86)	(1,151.19)	(1,263.07)	(18,196.52)
3	(Loss)/Profit before tax	(98.74)	(479.62)	(880.94)	(759.32)	(17,093.27)	(17,217.22)	(7,070.29)	(421.64)	24.25	(7,767.54)	(16,047.77)	(17,669.46)
4	(Loss)/Profit for the period/year	(98.74)	(479.62)	(885.83)	(759.32)	(17,099.78)	(17,223.73)	(5,435.36)	(526.31)	(155.47)	(6,237.28)	(16,458.55)	(17,980.43)
5	Total Comprehensive Income for the period/year	(98.74)	(479.62)	(885.83)	(759.32)	(17,081.82)	(17,231.50)	(5,435.36)	(526.31)	(155.47)	(6,237.28)	(16,440.59)	(17,867.14)
6	Equity share capital (Paid-up) (Face value of the share - Rs 10/- each)	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99
7	(Loss)/ Earnings Per Share (of Rs. 10 each)												
	(a) Basic earnings per share	(0.05)	(0.28)	(0.50)	(0.43)	(9.71)	(9.78)	(2.90)	(0.31)	(0.10)	(3.37)	(9.40)	(10.22)
	(b) Diluted earnings per share	(0.05)	(0.28)	(0.50)	(0.43)	(9.71)	(9.78)	(2.90)	(0.31)	(0.10)	(3.37)	(9.40)	(10.22)

# Notes:

Place: Gurugram

Date: February 14, 2023

- The above Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and on their recommendation have been approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2023.

Basic and Diluted Earnings Per Share is not annualized for the quarters ended December 31, 2022, September 30, 2022 and December 31, 2021 and nine months ended December 31, 2022 and

The above is an extract of detailed format of financial results (Standalone and Consolidated) filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the quarterly and nine months ended December 31, 2022 financial results are available on Company's website at www.a2zgroup.co.in and also be accessed on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of A2Z Infra Engineering Limited

**Amit Mittal** 

Managing Director & CEO

DIN: 00058944



(Corporate Contracts Department) The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

#### NOTICE INVITING TENDER (NIT) The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the

following tender packages (Two-part Bidding) in Mumbai. Services for 110kV structures modification at Parel Receiving station

For downloading the Tender documents (Including procedure to submit the bid), please visit Tender section on website <a href="https://www.tatapower.com">https://www.tatapower.com</a>. Interested bidders to submit Tender Fee, Authorization Letter and their Bids up to 15:00. Tuesday 28.02.2023.

All future corrigendum's (if any), to the above tenders will be informed on Tender section on website https://www.tatapower.com only.



### **GREENPLY INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L20211AS1990PLC003484 Registered Office: Makum Road, P.O. Tinsukia, Assam-786125 Corporate Office: "Madgul Lounge", 23 Chetla Central Road, 5th & 6th Floor, Kolkata - 700 027

Phone: (033) 3051-5000, Fax: (033) 3051-5010, Email: investors@greenply.com, Website: www.greenply.com

#### NOTICE FOR FURNISHING PAN, **KYC DETAILS AND NOMINATION**

Notice is hereby given with respect to SEBI circular dated November 03, 2021 for updation/submission of PAN, KYC details and Nomination by the shareholders holding shares in Physical mode. Shareholders of the Company, holding shares of the Company in Physical mode, are requested to submit their PAN, KYC details Nomination etc. in FORM ISR-1 and FORM SH-13 respectively to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company at the address mentioned below:

### S. K. Infosolutions Pvt. Ltd

Place : Kolkata

D/42, Katju Nagar Colony, Ground Floor,

Near South City Mall, PO & PS - Jadavpur, Kolkata - 700 032 Contact No.: 033-24120027 / 033-24120029

Email ID: contact@skcinfo.com / skcdilip@gmail.com

Copies of the above-mentioned forms can also be download from the website of the RTA i.e. http://www.skcinfo.com/notice.php and http://www.skinfo.in/notice.php

For Greenply Industries Limited

Kaushal Kumar Agarwal Date: 14.02.2023 Company Secretary & Vice President-Legal

#### रिलायंस एसेट रिकंस्टक्शन कम्पनी लि. **RELIANCE** 11वीं मंजिल, उत्तरी साइड, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व),

Asset Reconstruction

मुम्बई-400063 प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना [नियम 8(6) के साथ पठित नियम 6(2) देखें]

तिभुत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना तद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबंधक निम्नलिखित अचल/च

तम्पत्तियों, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया। के, रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दिनांक 29.03.2019 को एसाइनमेंट अनुबन्ध के माध्यम से अपने अधिकारों, स्वामित्व तथा ब्याज एवं निहत प्रतिभृतिय सहित आपके ऋण खाते की वित्तीय आस्तियों/कर्जों को आरएआरसी 059 (आरएचडीएफसीएल एचएल) ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आरएआरसी b पक्ष में एसाइन कर दिया है। कथित एसाइनमेंट के कारण, हम सम्पूर्ण अनुबन्धित बकायों की वसूली के लिए कानून तौर पर पात्र एवं आपके प्रतिभूत लेनदार हो गये हैं अतः **रिलायस एसेट रिकस्ट्रवशन कम्पनी लि.** के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत प्राधिकारी आपको 15 दिन की सूचना देते हैं कि नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्तियाँ धारा 13(2 के तहत माँग सूचना में उल्लिखित राशि एवं भावी ब्याज तथा लागत जो **आरएआरसी ०**59 (**आरएचडीएफसीएल एचएल**) ट्रस्ट के ट्रस्टी **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रवश** 

कम्पनी लि. ( आरएआरसी) के पक्ष में बकाया बकाया है, की उल्लिखित जमानतियों/बंधककर्ताओं से वसुली के लिए 10.03.2023 को ''जहाँ है जैसे हैं'', ''जो है यर्ह '' **तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'**' के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निम्नलिखित है :

	बंधक सम्पत्ति का विवरण		
लॉ ट न.	कर्जदार का नाम, सम्पत्ति का विवरण, मांग सूचना तथा कब्जा करने की तिथि	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1	अमित कुमार पाल पुत्र राधेश्याम पाल तथा संगीता पाल पत्नी अमित कुमार पाल दोनों निवासी एसजी- 67/18 शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 साथ ही: फ्लैट नं. एफएफ-2, पहली मंजिल, छत के अधिकार रहित, प्लॉट नं. जी-23-बी, खसरा नं.1546, आबादीय कॉलोनी, केशवकुंज, ग्राम रायसपुर, पराना डासना, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश संपत्ति: फ्लैट नं. एफएफ-2, पहली मंजिल, छत के अधिकार रहित, प्लॉट नं. जी-23-बी, खसरा नं.1546, रेजिडेंशियल कॉलोनी, केशव कुंज, ग्राम रायसपुर, पराना डासना, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (माप लगभग 45.985 वर्ग मीटर यानी 495 वर्ग फीट) मांग सुवना : 09.05.2018 तक रु. 14,04,355.54/- (रुपये चौदह लाख चार हजार तीन सौ पचपन और चौवन पैसे) करूजे की तारीख: 12.10.2021		Rs. 99,202.32
-	अनिल सिंह रावत पुत्र बिशन सिंह रावत और सरोजनी देवी पत्नी अनिल सिंह रावत दोनों निवासी गांव भंगेल कुंडा कालोनी मुख्य दादरी रोड सामने कन्या इंटर कॉलेज गौतमबुद्ध नगर नोएडा, उ.प्र., नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, साथ ही:- यूनिट नं. 208, (एफएफ), खाता नं 127, खरारा नं 3 एम, हिमालया रिजर्डेसी, जिला दादरी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा। संपत्ति: एलैट नंबर: 208, पहली मंजिल, खाता नंबर 127, खसरा नंबर 73 एम, हिमालया रेजींडेसी, जिला, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा. उ.ए. (माए लगभग 700 वर्ग फट यांनी 65.02 वर्गमीटर।)	De	Rs. 1,36,271.97

नोएडा, उ.प्र. (माप लगभग 700 वर्ग फुट यानी 65.02 वर्गमीटर।) तथा भावी ब्याज और लागत, कब्जे की तारीख: 26.10.2021 मनोज कुमार पुत्र ल**छ्यं महतो और रीता देवी पत्नी मनोज कुमार** दोनों निवासी वी-76, कुतुब विहार फेज-2, हनुमान चौ के पास, दिल्ली-110071, साथ हीः प्लॉट नं.-ए-3टीओए-7 खसरा नं.- 17 फ्लैट नं. 9वीं मंजिल एलआईजी रानीबाग कॉलो-हदबूस्त ग्राम्- सादुलाबाद, लोनी, गाजियाबाद संपत्तिः प्लॉट नंबर-ए-3 से ए-7 खसरा नंबर-17 फ्लैट नं. 9 दूसरी मंजिल रानीबाग कॉलोनी हदबस्त ग्राम-सादुलाबाद, लोनी 3.99.466.49 39,946.649 गाजियाबाद (माप लगभग ४१.८१ वर्ग मीटर)।

मांग सूचना : 19.05.2017 तक रु. 6,46,390.07/- (रुपये छः लाख छियालीस हजार तीन सौ नब्बे और सात पैसे मात्र) औ भावी ब्याज और लागत, कब्जे की तिथि: 07.03.2022 मिनीष शर्मा (कर्जदार) और मीनू शर्मा दोनों निवासी एफ359, सेक्टर-अल्फा2, रामपुर जागीर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201306 साथ ही:- फ्लैट नं. जीएफ-6, खसरा नं.178, प्लॉट नंबर 63 और 64, आवासीय कॉलोनी प्रज्ञा विहार, सहकारी आवार समिति लिमिटेड, गांव अकबरपुर बहरामपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, साथ ही:- वाया राधे कृष्ण माबंल शॉप नं. 14–15, साईं मंदिर मार्केट, गांव- तिगरी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201306 संपत्तिः फ्लैट नं. जीएफ-6, खसरा नं. 178, प्लॉट नं. 63 और 64, आवासीय कॉलोनी प्रज्ञा विहार, सहकारी आवास समिति लिमिटेड 7.38.112.50 73.811.25 ग्राम अकबरपुर बहराम पुर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (माप 50 वर्ग गज।)

**मांग सूचना** : रु. 10.08.2018 को 9,86,884.00/- (नौ लाख अस्सी हजार आठ सौ चौरासी रुपये मात्र) तथा भावी ब्याज अं स्तीश कुमार पुत्र मनोहर लाल और सुमन देवी पत्नी सतीश कुमार दोनों निवासी जीटी-43, सेक्टर-70, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301 साथ ही: फ्लैट नंबर-101-सी. पहली मंजिल. खसरा नं. 53 . लाइव वेल टावर-1. ग्राम गढी चौखंडी. परगना तहसी दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा संपत्तिः फ्लैट नंबर-101-सी, पहली मंजिल पर, खसरा नंबर 53, लाइव वेल टॉवर -1 पर, गांव गढ़ी चौखंडी, परगना तहसील 7.97.161.50 79,716.15

दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (माप लगभग 50 वर्ग गज) पर स्थित है। **मांग सचना** : 09.03.2018 को रु. 12,36,909.24/- (रुपये बारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ नौ सौ और चौबीस पैसे मात्र) अं भावी ब्याज लागत, कब्जे की तिथि: 21-03-22 🗗 **मोहम्मद दानिश और नीलम सिंह** दोनों निवासी प्लॉट नं. ए-43, खसरा नं. 1212, आवासीय कॉलोनी हयात एन्क्लेव, हदबस् ग्राम लोनी. परगना लोनी. तहसील और जिला गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश-201102. साथ ही:- वाया आरिब मेटल एंड लाइट. 1/34 संपत्तिः फ्लैट नं. जी.आर.-1, भृतल, प्लॉट नं. ए-43, खसरा नं. 1212, आवासीय कॉलोनी हयात एन्क्लेव, हदबस्त ग्राम लोनी, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित (फ्लैट नंबर जीआर-1)। 1,52,425.152

मांग सूचना : 17.12.2018 तक रु. 17,41,277.30/- (रुपये सत्रह लाख इकतालीस हजार दो सौ सतहत्तर और तीस पैसे मात्र और भावी ब्याज लागत, **कब्जे की तिथि:** 29-03-22 प्रवीण कुमार, धनश्याम दास और विनोद कुमार सभी निवासी : #4245/36, बाहुजी गली, बहादुर गढ़ रोड, दिल्ली-110006 साथ ही:- फ्लैट नं. एसएफ -4, एलआईजी, दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 8, खसरा नं. 185, खुशाल विहार, ग्राम सादुलबाद, परगन एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश संपत्तिः फ्लैट नं. एसएफ-4, एलआईजी दूसरी मंजिल, छत के अधिकार के साथ, क्षेत्रफल 33.44 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 8, खर 6,61,348.80 66,134.88 नं. 185, खुशहाल विहार आवासीय कॉलोनी, ग्रामसदुल्लाहद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित **मांग सूचना** : 15.02.2019 को रु. 9,15,141.39/– (रुपये नौ लाख पंद्रह हजार एक सौ इकतालीस और उनतालीस पैसे मात्र

और भावी ब्याज और लागत, कब्जे की तिथि: 29-03-22 अादित्य कुमार पुत्र आनंद कुमार अवस्थी और सौम्या अवस्थी दोनों निवासी सी-212ए लाजपत नगर साहिबाबाद गाजिया पसोंदा गढ़मुक्तेश्वर साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 साथ ही : फ्लैट नंबर 203, दूसरी मंजिल, एम.आई.जी. बैक साइड, प्लॉट नंबर 197, ब्लॉक जी, खसरा नंबर 1080, महेंद्र एन्क्लेव हदबस्त ग्राम राजापुर, परगना, डासना, तहसील और जि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 संपत्तिः फ्लैट नंबर 203, दूसरी मंजिल, एम.आई.जी. बैक साइड, छत के अधिकार रहित, प्लॉट नंबर 197, ब्लॉक जी, खसरा नंबर

1,08,413.964 10,84,139.64 1080, महेंद्र एन्क्लेव हदबस्त ग्राम राजापुर, परगना, डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश-201005 (लगभग 72.00 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) मांग सचनाः रु. 16,88,125.34/- (रुपये सोलह लाख अटटासी हजार एक सौ पच्चीस और चौंतीस पैसे मात्र) 20.12.2017 त तथा भावी ब्याज और लागत, कब्जा दिनांक: 09.09.2021 े स्तीष्ठा कुमार शर्मा पुत्र छोटे लाल शर्मा और रेखा गौड़ पत्नी स्तीश कुमार शर्मा, दोनों निवासी 148, बोंजा शिब्बनपु गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001, साथ ही : प्लॉट खसरा नंबर 380, दूसरी मंजिल, गांव इंद्रगढ़ी में, परगना और तहसील ददसन

1,16,917.02 संपत्तिः गांव इंद्रगढी, परगना और तहसील डासना, जिला गाजियाबाद में स्थित खसरा नंबर 380, दसरी मंजिल का समस्त भाग 11,69,170.20 मांग सचनाः रु. 18,39,125.14/- ( अठारह लाख उनतालीस हजार एक सौ पच्चीस और चौदह पैसे मात्र) 09.03.2018 तक त भावी ब्याज और लागत, कब्जा दिनांक: 30.09.2021 0 श्री गौरी शंकर पुत्र श्री नाथू राम, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री गौरी शंकर और श्री बृज मोहन पुत्र श्री गौरी शंक सभी निवासी 109. तीसरी मंजिल, डाकघर के पास, शालीमार गांव, दिल्ली-110088 संपत्तिः संपत्ति फ्लैट नं. जी.एफ.−2, एलआईजी, भूतल पर, पीछे की ओर, छत के अधिकार बिना, कवर एरिया 400 वर्ग फीट, प्लॉ नंबर ए-64 पर निर्मित, खसरा नंबर 1342/3. रामपार्क गांव के क्षेत्र में, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) मांग सूचनाः रु. 11,73,721.70/- (रुपये ग्यारह लाख तिहत्तर हजार सात सौ इक्कीस और सत्तर पैसे मात्र) 09.03.2016 तव 60,318.554 6.03,185.54

तथा भावी ब्याज और लागत, **कब्जा दिनांक**: 24.03.2021 **1** शिव कुमार, गीता कश्यप दोनों निवासी डी-59, प्रेम विहार पार्ट-3, निकट जिंदल सिनेमा, लोनी, गाजियाबाद-201102, साथ ही : फ्लैट नं, ए–47/6, दसरी मंजिल सामने की ओर, एलआईजी प्लॉट नं, 47, डीएलएफ अंकर विहार, गाजियाबाद, उ.प्र. तथा हरी शंकर निवासी जीएफ-3, एमएम-42, डीलएफ अंकुर विवास, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102, साथ ही : फ्लैट नं. एस-47/6, दूसरी मंजिल सामने की ओर, एलआईजी, प्लॉट नं. 47, डीएलएफ अंकुर विवास, गाजियाबाद, उ.प्र. सम्पत्ति : ए-38, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, खसरा . 205, ग्राम गोंडा, गुजरान खादर, ए-ब्लॉक, गली नं. 5, गामड़ी 4,78,828.34 47.882.834 क्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 का सम्पर्ण भाग।

**माँग सचना** : 07.02.2018 तक 10.16.956.71/- (रुपये दस लाख सोलह हजार नौ सौ छप्पन एवं इकहत्तर पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज एवं लागतें, कब्जा की तिथि : 26.03.2021 **2 संजय कुमार झा और नीलू झा दो**नों निवासी : एफ-50, बीएस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, लोहा मंडी के पास, गाजियाबाद, उर प्रदेश-201001 इसके अलावाः मकान नंबर 3, शिव मंदिर के सामने, गांव मोरती, पोस्ट सिहानी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-20100 साथ हीः प्लॉट नंबर ए-3, खसरा नंबर 227, साई विहार, गांव नूर नगर, गाजियाबाद। **संपत्तिः** प्लॉट नंबर ए-3, खसरा नंबर 227 12,01,213.80 1,20,121.38 साई विहार, गांव नुर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भाग, **मांग सूचना**: रुपये 12,89,976.20/- (रुपये बारह लाख नवासी हजार नौ सौ छिहत्तर और बीस पैसे मात्र) 17.07.2015 तक तथा भावी ब्याज और लागत, **कब्जा दिनांक: 11.07.2022** 3 संदीप कमार पत्र किरशन पाल और साक्षी यादव पत्नी संदीप कमार दोनों निवासी : ए 203 दसरी मंजिल प्लॉट नंबर ए

बी/एच गौड़ होम्स, शताब्दी पुरम, गोविंद पुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201013 साथ ही: आवासीय फ्लैट नंबर एफएफ-1, पह मंज़िल, पीछे बाई ओर का हिस्सा, प्लॉट नंबर ए-103, ब्लॉक-ए, शताब्दी पुरम, गाजियाबाद-201001 **संपत्ति**: आवासीय फ्लैट नंबर एफएफ-1, फर्स्ट फ्लोर, रियर लेफ्ट साइड पोर्शन, प्लॉट नंबर ए-103, ब्लॉक-ए, शताब्दी पुरम, गाजियाबाद- 201001 का 13.63.230.00 सम्पर्ण भाग, **मांग सचना**: रु. 20,37,580,21/- (रुपये बीस लाख सैंतीस हजार पांच सौ अस्सी और इक्कीस पैसे मात्र) कब्जे की तिथि: 12.06.2018

सम्पत्ति का निरीक्षण : 03.03.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 02.00 बजे अप. संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 09/03/2023 को 3.00 बजे अप. तक

ई-नीलामी की तिथि : 10/03/2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार सहित बिक्री के नियम एवं शर्तें

. सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मुल्य से नीचे नहीं की जाएगी तथा बिक्री प्रतिभुत क्रेडीटर के रूप में आरएआरसी की पुष्टि के अधीन होगी। 2. ई–नीलामी मै. सी1 इंडिया प्रा.िं द्वारा ऑनलाइन प्लॉट नं. 68 गुरुग्राम, हरियाणा, पिन कोड-122003 पर आयोजित होगी। 3. ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता के पास ई-मेल आईडी हो तथ उन्हें पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकत कराना होगा तथा मै, सी। इंडिया प्रा. लि. से यजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। 4. संभावि बोलीदाता मै. सी1 इंडिया प्रा.लि. (सम्पर्क व्यक्ति विनोद चौहान, मोबाइल नं. +919813887931, Delhi@c1 india.com अथवा Support@bankeau ions.com (हेल्प लाइन नं. 7291981124, 25, 26) से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 5. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान चालू खाता र 5742557088, बैंक का नामः **इण्डियन बैंक शाखा**ः **शांताक्रुज, वेस्ट ब्रांच मुम्बई**, 400054, लाभभोगी का नामः **आरएआरसी 059 ट्रस्ट (आरएचडीएफसीएल एचएल** ट्रस्ट, आईएफएससी कोड: IDIB000S010 में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा। कपया ध्यान रहे कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड डाफ्ट स्वीक नहीं किया जाएगा। 6. आरक्षित मुल्य से नीचे एवं/अथवा ईएमडी के बिना बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता रु. 5000/– प्रति लॉट के गुणक में अपनी बोली राशि में सुधार कर सकते हैं। 7. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के तत्काल बाद 25% बोली राशि/बिक्री मूल्य (धरोहर राशि सहित) का भुगतान करना होगा -सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली/ बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उक्त रूप में बोली राशि का भुगतान नहीं करते हैं, इंएमडी सहित सभी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। 9. असफल बोलीदाता की इंएमडी ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति व बाद बिना किसी ब्याज के सात दिनों के भीतर वापस लौटा दी जाएगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण उनकी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास तथा रेकाईस सही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी गलती, गलत विवरण या त्रुटियों आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 11. अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना वे अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने या बिकी को स्थिगत/ निलंबित/ रह करने अथवा बिकी के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोध करने का अधिकार है। 12. संपत्ति पर चार्ज/अधिभारों/विधिक बकायों के संदर्भ में बोलीदाता स्वयं गोपनीय तरीके से जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पर्व संपि के टाईटल. विस्तार अथवा गणवत्ता के विषय में स्वयं को संतष्ट कर लें। ऑन लाइन बोली जमा कर देने के बाद संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों तथा किसी अन्य मामले आर्वि के लिए किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किए जाएंगे। 13. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में इस सूचना की तिथि तक सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। 14. स्टाम्प ड्यूटी/ पंजीकरण शुल्क सहित संपत्ति की बिक्री पर किसी एरिअर्स, बकाए, करों, चैट, टीडीएस, जीएसटी, चार्जेज, सांविधिक या अन्य का वहन केवः

क्रेता को ही करना होगा किसी अन्य सूचना के लिए 18001039711/18602664111/18003099711 से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के तहत 15 दिवसीय विधिक सूचना तद्वारा कर्जदार∕सह−कर्जदारों∕जमानतियों को अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित ईं−नीलामी के पूर्व उपर्युक्त सम्पूर्ण राशि अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता हैं जिसमें असफल रहने पर उपर्यक्त बंधक सम्पनी की ई–नीलामी की जाएगी और शेष बकाया. यदि कोई हो, ब्याज/लागत सहित वसल किया जायेगा। नीलामी के लिए निर्धारित तिथि पर नीलामी बिक्री में कोई बोली प्राप्त नहीं होने की स्थित में, प्रतिभूत लेनदार किसी भी संभावित खरीदार को ऊपर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर या उससे अधिक निर्ज

संधि के माध्यम से इस संपत्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। स्थान : दिल्ली अधिकत प्राधिका तिथि : 15.02.202

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना के निर्गमन के पश्चात अदा की गयी राशि,

# **Get insights**

from wherever you are



The **ALL-NEW Business Standard App** Making Devices Smart, Insight Out.



#### The Business Standard Morning show

New episodes at 8am, Monday to Friday



### Daily market insights

Get detailed analysis and updates on the share market



### Go offline

Online, Offline, Anytime, Stay connected, always



1.36.323.00

### Dark mode

Introducing dark mode for easy reading



### Read to me

Listen on the move



## **Quick reads**

For when you don't have time





# **Business Standard** Insight Out





business-standard.com

## **Avonmore Capital & Management Services Limited**

CIN: L67190DL1991PLC045857 Registered office: F- 33 / 3 Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020 Tel.: 011-43500700, Fax.: 011-43500735 Website: www.avonmorecapital.in, E-mail ID: secretarial@almondz.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter / Nine Months Ended 31 December 2022 (Rs.in lakh, except per share data)

	Q	uarter Ende	t	Nine Mont	hs ended	Year Ended		
Particulars	Dec 31, 2022	Sept 30, 2022	Dec 31, 2021	Dec 31, 2022	Dec 31, 2021	Mar 31, 2022		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Total income from operations	2,237	1,970	2,262	18,907	6,325	8,719		
Net profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraodinary items)	319	393	533	13,722	1,545	1,717		
Net profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraodinary items)	319	393	533	13,722	1,545	1,717		
Net profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraodinary items, minority interest and share of profit/(loss) in associate companies)	316	500	885	11,271	2,773	3,247		
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comrehensive income (after tax))	271	553	893	11,268	2,797	3,267		
Equity Share Capital	2,400	2,400	2,492	2,400	2,492	2,492		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance sheet)						18,133		
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10 /- each)								
(a) Basic	1.34	2.12	3.65	47.68	11.43	13.38		
(b) Diluted	1.34	2.12	3.65	47.68	11.43	13.38		
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10 /- each)								
(a) Basic	1.34	2.12	3.65	47.68	11.43	13.38		
(b) Diluted	1.34	2.12	3.65	47.68	11.43	13.38		
Key number of Standalone Financial Populte	(v. number of Clandeless Financial Paralle							

Half Year Ended Quarter Ended Year ended Dec 31 Sept 30. Dec 31. Dec 31. Dec 31. Mar 31. 2022 2022 2021 2022 2022 Unaudited Unaudite Jnaudite Audited Net Income from Operations 239 352 3,218 280 105 191 Profit from ordinary activities before tax 26 190 2,728 139 Profit from ordinary activities after tax 55 126 13 2,044 78 Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) (45) 2.029 140 and Other Comrehensive income (after tax)) 217 80

- The Financial Results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards Amendment Rules, 2016.
- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulatio 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results and the notes there to are available at the website of the company www.avonmorecapital.in and stock exchange website, i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com.
- The Consoliated Unaudited Financial Results (PAT) for the Quarter/ Nine Months Ended 31 December 2022 include figures pertaining to three associates: M/s Premier Alcobey Private Limited, M/s Almondz Insolvency Resolutions Services Private Limite & (Willis Towers Watson India Insurance Brokers Private Limited upto 7th April 2022)

For and on behalf of the Board o Avonmore Capital & Management Services Ltd

Place: New Delhi Date: 14-Feb- 2023

Ashok Kumar Gunta

# ब्रान (BRAWN) बायोटेक लिमिटेड

सीआईएन : एल७४८९९डीएल१९८५पीएलसी०२२४६८ पंजी. कार्यालय : सी-64, लाजपत नगर, दिल्ली-110024

31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु पृथक्कृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

		-				(रू. लाख म)
			पृथव	कृत		
विवरण		तिमाही समाप्त		नौ माह	समाप्त	वर्ष समाप्त
	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालन से कुल आय	631.13	777.00	252.78	1,748.35	573.34	862.05
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि)	-3.72	-35.42	-156.73	-26.02	-227.44	-164.44
कर पश्चात						
अवधि हेत् शुद्ध शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात	-3.72	-35.42	-156.73	-26.02	-227.44	-164.44
(असाधारण मदों के बाद)						
कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि)	-5.49	-37.40	-158.81	-30.08	-222.23	-157.48
(कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय सम्मिलित हैं]						
इक्विटी शेयर पूंजी	300.03	300.03	300.03	300.03	300.03	300.03
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि पूर्व वर्ष के	-	-	-	-	-	-
तुलनपत्र में दर्शित है)						
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व) (वार्षिककृत						
	-0.18	-1.25	-5.29	-1.00	-7.41	-5.25
(ख) तनुकृत (रू.)	-0.18	-1.25	-5.29	-1.00	-7.41	-5.25
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद) (वार्षिककृत						
नहीं) (रू. 10 / -प्रत्येक का)						
(क) मूल (रू.)	-0.18	-1.25	-5.29	-1.00	7.41	-5.25
(ख) तनुकृत (रू.)	-0.18	-1.25	-5.29	-1.00	-7.41	-5.25
	प्रचालन से कुल आय साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात अविध हेतु शुद्ध शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों के बाद) कुल समावेशी आय [जिसमें अविध हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय सम्मिलित हैं] हिवदी शेयर पूंजी संचेय (पुनर्मूट्यन संचेय छोड़कर, जैसािक पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शित हैं) प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व) (वार्षिककृत नहीं) (क. 10/-प्रत्येक का) (क) मूल (क.) प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद) (वार्षिककृत नहीं) (क. 10/-प्रत्येक का) (क) मूल (क.)	31.12.2022   अलेखापरीकित   प्रचालन से कुल आय   631.13   साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाम / (हानि)   -3.72   कर पश्चात   3.72	31.12.2022   30.09.2022   अलेखापरिक्रित   3.77.00   -3.72   -35.4	स्विवरण   31.12.2022   30.09.2022   31.12.2021   अलेखापपेक्षित   उ.3.72   -35.42   -156.73   कर पश्चात   अति होतु शुद्ध शुद्ध लाम / (हानि) कर पश्चात   -3.72   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -35.42   -156.73   -37.40   -158.81   -37.40   -158.81   -37.40   -158.81   -37.40   -158.81   -37.40   -158.81   -37.40   -158.81   -37.40	अतंत्रवापरीक्षत   अलेखापरीक्षत   अलेखापरीक्यत   अलेखापरीक्षत   अलेखापरीक्षत   अलेखापरीक्षत   अलेखापरीक्षत	जिसारी समाप्त   जा.12.2024   जा.12.2024

1— उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.brawnbiotech.com)पर उपलब्ध है।

- 2- उपरोक्त परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा तथा अनुमोदन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा 14-02-2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में किया गया है।
- **3** वित्तीय विवरण यथासंभव कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 (आईएनएस—एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। कम्पर्न ने आईएनडी-एएस सर्वप्रथम बार 01 अपैल 2017 से आरंभ किए हैं जिसकी परिवर्तन तिथि 01 अपैल 2016 है।
- 4– कम्पनी प्राथमिक रूप से फार्मस्युटिकल्स के व्यवसाय में संलग्न है। तदनुसार, प्रचालन खंडों के संबंध में आईएनडी–एएस 108 के अनुसा कोई पथक पतिवेदनीय खंड नहीं हैं।
- 5— पूर्व वर्ष / अवधि के आंकड़े पुनर्समृहित / पुनर्त्यवस्थित किए गए हैं, जहां कहीं उनको चालू अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाना

कृते एवं हिते बोर्ड वास्ते ब्रान (BRAWN) बायोटेक लिमिटेड

हीआईएन : 0007408

तिथि : 14-02-2023 स्थान : दिल्ली

# HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

**CIN**: L74899DL1992PLC048945 **Regd. Office**: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 Ph.: +91-11-23234411, Fax: +91-11-23232639

## E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

	AND NINE MONT	HS END	HS ENDED DECEMBER 31, 2022						
Sr.		Q	uarter ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Year ended		
No.	Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from Operations	30,158.51	30,227.73	28,004.34	89,945.57	68,881.89	1,01,395.47		
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	980.72	970.22	925.12	2,920.27	(332.13)	1,393.48		
3	Net Profit/ (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	980.72	970.22	925.12	2,920.27	(332.13)	1,393.48		
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	638.37	627.79	930.39	1,898.13	(571.86)	780.46		
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	620.31	612.83	943.67	1,848.73	(533.94)	720.14		
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	_		-		70,018.83		
8	Earnings Per Share (face value of Rs.10 each)								
	1. Basic (Rs.)	0.99	0.97	1.44	2.94	(0.89)	1.21		
	2. Diluted (Rs.)	0.99	0.97	1.44	2.94	(0.89)	1.21		

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. in Lakhs Quarter ended Nine Months Ended Year ended **Particulars** 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 1 Total Income from Operations 28,684.40 | 29,128.22 | 27,325.57 | 86,267.10 | 68,035.40 | 1,00,427.98 2 Profit before tax (337.15) 1.086.62 901.47 715.02 2.622.21 861.56 3 Profit after tax 560.02 585.90 727.21 1,706.03 (552.53) 711.95

### Notes:-

Place: Noida Date: 14.02.2023

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's at their respective
  meetings held on February 14, 2023. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these
  financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.
- 2) The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.hplindia.com
- 3) Management has changed its segmental reporting by aggregating/restructuring on the basis of similar economic, market and business characteristics. Thereby the two new reportable segments identified are Consumer & industrial by aggregating wire & cables, lighting, luminaries and switchgear business in to one segment and aggregating of Metering, systems and projects business in to another segment as Metering & Systems. Changes in reportable segment are in
- accordance with Ind AS 108, hence previous year figures are re-instated to make it comparable 4) Previous guarter/year ended figures have been regrouped/ restated wherever necessary.

For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited

Managing Director DIN:00203469